



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 27]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2012/माघ 4, 1933

No 27]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2012/MAGHA 4, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2012

सं. 9/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 42(अ).— केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपादन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम 1995 के नियम 13 एवं 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 की 51) की धारा 9क की उपधाया (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 91/2011-सीमाशुल्क, तारीख 20 सितम्बर, 2011 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में सा०का०नि० 699 (अ), तारीख 20 सितम्बर, 2011 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, को उन बातों के सिवाय जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई है या जिन्हे करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फा. सं 354/239/2011-टीआरयू]

संजीव कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2012

No. 9/2012-Customs (ADD)

G.S.R. 42(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the

notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 91/2011-Customs, dated the 20th September, 2011, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G S R 699 (E), dated the 20th September, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such rescission

[F No 354/239/2011-TRU]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2012.

सं. 10/2012-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 43(अ).—अभिहित प्राधिकारी, चाइना पीआर, यूरोपियन संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिस इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 29333917 के अंतर्गत आने वाले मोरफोलिन (जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 9 अगस्त, 2011 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना सं० 14/41/2010-डीजीएडी, तारीख 9 अगस्त, 2011 में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि -

(क) संबद्ध माल का भारत में संबद्ध देश से निर्यात उनके सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर किया था;

(ख) संबद्ध माल के संबंध में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी;

(ग) संबद्ध देश से संबद्ध माल का पाटित आयात करने के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी;

और संबद्ध देश में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए संबद्ध माल के आयातों पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी ।

और जबकि, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 91/2011-सीमाशुल्क, तारीख 20 सितम्बर 2011, जो कि सा०का०नि० 699 (अ) तारीख 20 सितम्बर, 2011, के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी के द्वारा संबद्ध माल पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाया था

और जबकि अभिहित प्राधिकारी, अपने अंतिम निष्कर्षों अधिसूचना सं० 14/41/2010-डीजीएडी तारीख 5 दिसम्बर, 2011 जो कि भारत के राजपत्र असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 5 दिसम्बर 2011 में प्रकाशित हुई, से इस निर्णय पर पहुंचे थे कि -

(क) संबद्ध माल का भारत में संबद्ध देश से निर्यात उनके सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर किया था;

(ख) संबद्ध माल के संबंध में घरेलू उद्योग का वास्तविक क्षति हुई थी

(ग) सबद्ध देश से सबद्ध माल का पाटित आयात करने के कारण घरेलू उद्योग का वास्तविक क्षति हुई थी

और सबद्ध देश में मूलतः उदगमित या वहाँ से निर्यात किये गए सबद्ध माल के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी।

अतः अब केंद्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क की उपधारा (1) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपादित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के उक्त निष्कर्षों के आधार पर अधोलिखित सारणी के स्तम्भ (4) में वर्णित देशों में उदगमित उक्त सारणी के स्तम्भ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए ऐसे मालों पर जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तम्भ (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से उक्त सारणी के स्तम्भ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए उक्त सारणी के स्तम्भ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित भाँसे जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तम्भ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिमापन इकाई व्यक्त समतुल्य दर पर प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं०	टैरिफ मद	माल का विवरण	उदगम देश	निर्यातक	उत्पादक	निर्यातक	भाँसे	मापन की इकाई	करेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29333917	मोरफोलिन	चाइना पीआर	चाइना पीआर	मै० अनहूई हाओयूआन केमिकल ग्रुप क लि	मै० अनहूई हाओयूआन केमिकल ग्रुप क लि	0.29	किलोग्राम	अमरीकी डालर
2	29333917	मोरफोलिन	चाइना पीआर	चाइना पीआर	क्रम सं० 1 से इतर कोई संयोजन		0.63	किलोग्राम	अमरीकी डालर
3	29333917	मोरफोलिन	सबद्ध देशों से इतर कोई देश	चाइना पीआर	कोई	कोई	0.63	किलोग्राम	अमरीकी डालर
4	29333917	मोरफोलिन	चाइना पीआर	सबद्ध देशों से इतर कोई देश	कोई	कोई	0.63	किलोग्राम	अमरीकी डालर
5	29333917	मोरफोलिन	यूरोपियन संघ	यूरोपियन संघ	मै० बीएएसई एसई	मै० बीएएसई एसई	0.35	किलोग्राम	अमरीकी डालर
6	29333917	मोरफोलिन	यूरोपियन संघ	यूरोपियन संघ	क्रम सं० 5 से इतर कोई संयोजन		0.68	किलोग्राम	अमरीकी डालर

6	29333917	मोरफोलिन	यूरोपियन सघ	यूरोपियन सघ	क्रम स0 5 से इतर कोई सयोजन		0.68	किलोग्राम	अमरीकी डालर
7	29333917	मोरफोलिन	सबद्ध देशो से इतर कोई देश	यूरोपियन सघ	कोई	कोई	0.68	किलोग्राम	अमरीकी डालर
8	29333917	मोरफोलिन	यूरोपियन सघ	सबद्ध देशो से इतर कोई देश	कोई	कोई	0.68	किलोग्राम	अमरीकी डालर
9	29333917	मोरफोलिन	सयुक्त राज्य अमरीका	सयुक्त राज्य अमरीका	म0 हुन्टसमान पेट्रोकेमिकल कार्पोरेशन	म0 हुन्टसमान पेट्रोकेमिकल कार्पोरेशन	0.50	किलोग्राम	अमरीकी डालर
10	29333917	मोरफोलिन	सयुक्त राज्य अमरीका	सयुक्त राज्य अमरीका	क्रम स0 9 से इतर कोई सयोजन		0.81	किलोग्राम	अमरीकी डालर
11	29333917	मोरफोलिन	सयुक्त राज्य अमरीका	सबद्ध देशो से इतर कोई देश	कोई	कोई	0.81	किलोग्राम	अमरीकी डालर
12	29333917	मोरफोलिन	सबद्ध देशो से इतर कोई देश	सयुक्त राज्य अमरीका	कोई	कोई	0.81	किलोग्राम	अमरीकी डालर

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क अनतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने की तारीख अर्थात् 20 सितम्बर, 2011 से पांच वर्ष तक, (यदि उसका खडन, अधिक्रात और सशोधन न किया जाये) जिसमे यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रमावी रहेगा और भारतीय करेसी मे सदेय होगा ।

स्पटीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनो के लिए प्रतिपाटन शुल्क की सगणना के प्रयोजनो के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अधीन शक्तियो का प्रयोग करते हुए, समय समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण क लिए सुझगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. स 354/239/2011-टीआरयू]

सजीव कुमार सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2012

No. 10/2012-Customs (ADD)

G.S.R. 43(E).—Whereas, in the matter of import of Morpholine (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 29333917 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act), originating in, or exported from, China PR, European Union and the United States of America (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority vide its preliminary findings No 14/41/2010-DGAD dated the 9th August, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section 1, dated the 9th August 2011, had come to the conclusion that-

- (a) the subject goods had been exported to India from the subject countries below its normal value,
- (b) the domestic industry had suffered material injury in respect of the subject goods,
- (c) the material injury to the domestic industry had been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries,

and had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from, the subject countries

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods, vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No 91/2011-Customs, dated the 20th September, 2011, published in the Gazette of India,

244 91/12-2

Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G S.R. 699(E), dated the 20th September, 2011;

And whereas, the designated authority in its final findings *vide* notification No 14/41/2010 -DGAD, dated the 5th December, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th December, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th December, 2011, had come to the conclusion that-

- (a) the subject goods had been exported to India from the subject countries below its normal value,
- (b) the domestic industry had suffered material injury in respect of the subject goods,
- (c) the material injury to the domestic industry had been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries,

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in

column (10) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table

TABLE

Sl No	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of exports	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29333917	Morpholine	China PR	China PR	M/s Anhui Haoyuan Chemical Group Co Ltd	M/s Anhui Haoyuan Chemical Group Co Ltd	0.29	kg	US dollar
2	29333917	Morpholine	China PR	China PR	Any other than combination at Sr No 1		0.63	Kg	US dollar
3	29333917	Morpholine	Any country other than the subject countries	China PR	Any	Any	0.63	Kg	US dollar
4	29333917	Morpholine	China PR	Any country other than the subject countries	Any	Any	0.63	Kg	US dollar
5	29333917	Morpholine	European Union	European Union	M/s BASF SE	M/s BASF SE	0.35	Kg	US dollar
6	29333917	Morpholine	European Union	European Union	Any other than combination at Sr No 5		0.68	Kg	US dollar
7	29333917	Morpholine	Any country other than the subject countries	European Union	Any	Any	0.68	kg	US dollar
8	29333917	Morpholine	European Union	Any country other than the subject countries	Any	Any	0.68	Kg	US dollar
9	29333917	Morpholine	USA	USA	M/s Huntsman Petrochemical	M/s Huntsman	0.50	Kg	US dollar

					Corporation	Petrochemical Corporation			
10.	29333917	Morpholine	USA	USA	Any other than combination at Sr No 9		0.81	Kg	US dollar
11	29333917	Morpholine	USA	Any country other than the subject countries	Any	Any	0.81	Kg	US dollar
12	29333917	Morpholine	Any country other than the subject countries	USA	Any	Any	0.81	Kg	US dollar

2. The anti-dumping duty imposed shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is, 20th September, 2011 and shall be payable in Indian currency.

Explanation - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F No 354/239/2011-TRU]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2012

सं. 11/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 44(अ).—अभिहित प्राधिकारी, चाइन पीआर (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) ग मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (जिसे इसके बाद उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम भी कहा गया है) की पहली अनुसूची के अध्याय 39, 55, 56, 59 और 70 के अंतर्गत आने वाले जियोग्रिड/जियोस्ट्रीप/जियोस्ट्रेप्स पॉलीस्टर या ग्लास फाइबर से बने सभी रूपा ग (सगी चौड़ाई और लंबाई सहित) (जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) के आयात के मामले में भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड 1, तारीख 19 दिसम्बर, 2011 में प्रकाशित अपना अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 14/40/2010-डीजीएडी, तारीख 19 दिसम्बर, 2011 में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि -

(क) सबद्ध देश से भारत को सबद्ध वस्तु का निर्यात उनके सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर किया गया था।

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति सबद्ध माल के कारण हुई थी।

(ग) घरेलू उद्योग का वास्तविक क्षति सबद्ध देश के मूल की उदगमित या वहां से निर्यातित सबद्ध माल के पारित आयातों द्वारा हुई थी।

और सबद्ध देश में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए सबद्ध माल के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) द्वारा पदत शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क टैरिफ (पारित वस्तुओं की पहचान उस पर प्रतिपादित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम 1995 के नियम 18 और 20 के अन्तर्गत अधिहित प्राधिकार के पूर्वोक्त जाच परिणाम के आधार पर अधोलिखित सारणी के स्तंभ (4) में वर्णित देशों में उदगमित उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित भारत में आयात किए गए सबद्ध मालों पर जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद के अन्तर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित करती है, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेसी और उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है।

सारणी

क्रम (1)	टैरिफ मद (2)	माल का विवरण (3)	उदगम देश (4)	निर्यातक देश (5)	उत्पादक (6)	निर्यातक (7)	राशि (8)	माप की इकाई (9)	करेसी (10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	39021000 39140090, 39201019 29269099, 55034000 56031300, 56039400, 56041000 56049000 56089090 59031090 59039090 59111000 59113150 59113190, 59119090 70194000, 70195900 70199010 70199090	जियोगिड/ जियोस्टीप/ जियोस्ट्रेप्स पॉलीस्टर या ग्लान फाइबर से बने सभी रूपा में (सभी चौड़ाई और लंबाई गहिरा)	चाइना पीआर	चाइना पीआर	कोई	कोई	0.55	वर्ग मी	अमरीकी डालर
2	39021000 39140090 39201019 29269099 55034000 56031300 56039400, 56041000,	जियोगिड/ जियोस्टीप/ जियोस्ट्रेप्स पॉलीस्टर या	चाइना पीआर क सिबाय	चाइना पीआर	कोई	कोई	0.55	वर्ग मी	अमरीकी डालर

	56049000, 56089090, 59031090, 59039090, 59111000 59113150, 59113190, 59119090, 70194000, 70195900, 70199010, 70199090	ग्लास फाइबर से बने सभी रूपों में (सभी चौड़ाई और लंबाई सहित)	अन्य कोई						
3	39021000, 39140090, 39201019, 29269099 55034000, 56031300, 56039400, 56041000, 56049000, 56089090, 59031090, 59039090, 59111000, 59113150, 59113190, 59119090, 70194000, 70195900, 70199010, 70199090	जियोग्रिड/ जियोस्ट्रीप/ जियोस्ट्रेप्स पॉलीएस्टर या ग्लास फाइबर से बने सभी रूपों में (सभी चौड़ाई और लंबाई सहित)	चाइना पीआर	चाइना पीआर के सिवाय अन्य कोई	कोई	कोई	0.55	वर्ग मी.	अमरीकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपादन शुल्क सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक (यदि उसका खंडन, अधिकृत और सशोधन न किया जाये) जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगा और भारतीय करेंसी में सदैव होगा।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपादन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनियम दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अधीन शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनियम दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा स 354/339/2011-टीआरयू]

सजीव कुमार सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2012

No. 11/2012-Customs (ADD)

G.S.R. 44(E).—Whereas, in the matter of import of Geogrid/Geostrips/ Geostraps made of polyester or Glass fiber in all its forms (including all widths and lengths) (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapters 39, 55, 56, 59 and 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority vide its final findings No. 14/40/2010-DGAD, dated the 19th December, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19th December, 2011, had come to the conclusion that-

- (a) the subject goods had been exported to India from the subject countries below its normal value,
- (b) the domestic industry had suffered material injury in respect of the subject goods,
- (c) the material injury to the domestic industry had been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries,

and had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from, the subject countries

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under Tariff items of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table

TABLE

S No	Tariff- items	Description of goods	Country of origin	Country of exports	Producer	Exporter	Duty amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	39021000, 39140090 39201019, 39269099 55034000, 56031300, 56039400, 56041000, 56049000, 56089090 59031090,	Geogrid/ Geostrips/ Geostrips made of Polyester or Glass Fiber in all its forms (including All widths and lengths)	China PR	China PR	Any	Any	0.55	Square metre	US dollar

	59039090, 59111000, 59113150, 59113190, 59119090, 70194000, 70195900, 70199010, 70199090								
2	39021000, 39140090, 39201019, 39269099, 55034000, 56031300, 56039400, 56041000, 56049000, 56089090, 59031090, 59039090, 59111000, 59113150, 59113190, 59119090, 70194000, 70195900, 70199010, 70199090	Geogrid/ Geostrips/ Geostraps made of Polyester or Glass Fiber in all its forms (including All widths and lengths)	Any other than China PR	China PR	Any	Any	0.55	Square metre	US dollar
3	39021000, 39140090, 39201019, 39269099, 55034000, 56031300, 56039400, 56041000, 56049000, 56089090, 59031090, 59039090, 59111000, 59113150, 59113190, 59119090, 70194000, 70195900, 70199010, 70199090	Geogrid/ Geostrips/ Geostraps made of Polyester or Glass Fiber in all its forms (including All widths and lengths)	China PR	Any other than China PR	Any	Any	0.55	Square metre	US dollar

2. The anti-dumping duty imposed shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act

[F No 354/339/2011-TRU]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th January, 2012

G.S.R. 45(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No 125/2011-Customs, dated the 30th December, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G S R 929 (E), dated the 30th December, 2011, in the Table,-

(i) for

“113	8703	Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 87 02) including station wagons and racing cars, new, which have not been registered anywhere prior to importation	0 00%
		(1) If imported as completely knocked down (CKD) unit,	6 00%
		(2) If imported in any other form	8 00%”

read

“113	8703	Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 87 02), including station wagons and racing cars, new, which have not been registered anywhere prior to importation	
		(1) If imported as completely knocked down (CKD) unit,	6 00%
		(2) If imported in any other form	8 00%”

(ii) for

“116	8711	Motor cycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side cars, and side cars, new, which have not been registered anywhere prior to importation	0.00%
		(1) If imported as completely knocked down (CKD) unit,	6.00%
		(2) If imported in any other form	8.00%”

read

“116	8711	Motor cycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side cars, and side cars, new, which have not been registered anywhere prior to importation	
		(1) If imported as completely knocked down (CKD) unit,	6.00%
		(2) If imported in any other form	8.00%”

[F. No. 354/42/2002-TRU (Pt.)]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy.